



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 240]
No. 240]नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 16, 1978/श्रावण 25, 1900
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 16, 1978/SRAVANA 25, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि और सिंचाई मंत्रालय
(खाद्य विभाग)नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1978
आदेश

सां०कां० 413 (अ)/प्रा० वस्तु/शर्करा—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सां०कां० 310 (अ०)/प्रा० वस्तु/शर्करा, तारीख 15 जून, 1972 के साथ प्रकाशित अधिग्रहीत शर्करा प्रदाय (नियंत्रण) आदेश, 1972 को निम्नलिखित करती है :

परन्तु इस आदेश की कोई भी बात वर्ष 1977-78 के दौरान उत्पादित शर्करा की बाबत राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से पूर्व, अधिग्रहीत शर्करा प्रदाय (नियंत्रण) आदेश, 1972 के खण्ड 2 के अधीन जारी किए गए किसी निदेश को प्रभावित नहीं करगी;

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार को, पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट निदेशों में से किसी निदेश की अपेक्षानुसार अधिग्रहीत शर्करा की समस्त मात्रा के परिदान या प्रेषण कार्य को पूरा करने के प्रयोजनार्थ, ऐसे किसी निदेश में निम्नलिखित तारीख को बढ़ाने की शक्ति होगी।

[सं० 1-12/77-एस०पी०आई० (डेस्क-II)]

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION
(Department of Food)

ORDERS

New Delhi, the 16th August, 1978

G.S.R. 413(E)/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities

Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1972 published with the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 310(E)/Ess. Com./Sugar, dated the 15th June, 1972 :

Provided that nothing contained in this Order shall affect any direction issued under clause 2 of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1972 before the date of publication of this Order in the Official Gazette, in respect of the sugar produced during 1977-78 season :

Provided further that the Central Government shall, for the purpose of completing the delivery or despatch of the entire quantity of levy sugar as required by any of the directions, referred to in the preceding proviso, have the power to extend the date specified in any such direction.

[No. 1-12/77-SPY (Desk II)]

सां०कां० 414 (अ)/प्रा० वस्तु/शर्करा—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के यथास्थिति, कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), या कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के निम्नलिखित आदेशों को निम्नलिखित करती है, अर्थात् :—

- सां०कां० 309 (अ)/प्रा० वस्तु/शर्करा, तारीख 15 जून, 1972;
- सां०कां० 458 (अ)/प्रा० वस्तु/शर्करा, तारीख 7 नवम्बर, 1972;
- सां०कां० 509 (अ)/प्रा० वस्तु/शर्करा, तारीख 28 नवम्बर, 1973;
- सां०कां० 670 (अ)/प्रा० वस्तु/शर्करा, तारीख 28 नवम्बर, 1974;

- (v) सांकांनि० 571(प्र)/आव० वस्तु/शर्करा, तारीख 29 नवम्बर, 1975;
- (vi) सांकांनि० 887(प्र)/आव० वस्तु/शर्करा, तारीख 19 नवम्बर, 1976; और
- (vii) सांकांनि० 767 (प्र)/आव० वस्तु/शर्करा, तारीख 22 दिसम्बर, 1977; .

2. इस आदेश में किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सांकांनि० 767. (प्र)/आव० वस्तु/शर्करा, तारीख 22 दिसम्बर, 1977 के साथ प्रकाशित शर्करा (1977-78 में उत्पादित शर्करा कीमत अवधारण) आदेश, 1977, वर्ष 1977-78 के दौरान उत्पादित उस शर्करा को भी लागू होगा, जिसकी बाबत अधिग्रहीत शर्करा प्रदाय (नियंत्रण) आदेश, 1972 को विखण्डित करने वाले आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्व उक्त अधिग्रहीत शर्करा प्रदाय (नियंत्रण) आदेश, 1972 के खण्ड 2 के अधीन कोई निदेश जारी किया गया है।

[सं० 1-12/77-एस०पी०वाई० (डेस्क II)]

G.S.R. 414 (E)/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the following Orders of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food), or Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), as the case may be, namely :—

- (i) G.S.R. 309(E)/Ess. Com./Sugar, dated the 15th June, 1972;
- (ii) G.S.R. 458(E)/Ess. Com./Sugar, dated the 7th November, 1972;
- (iii) G.S.R. 509(E)/Ess. Com./Sugar, dated the 28th November, 1973;
- (iv) G.S.R. 670(E)/Ess. Com./Sugar, dated the 28th November, 1974;
- (v) G.S.R. 571(E)/Ess. Com./Sugar, dated the 29th November, 1975;
- (vi) G.S.R. 887(E)/Ess. Com./Sugar, dated the 19th November, 1976; and
- (vii) G.S.R. 767(E)/Ess. Com./Sugar, dated the 22nd November, 1977;

2. Notwithstanding anything contained in this Order, the Sugar (Price Determination for 1977-78 Production) Order, 1977, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) No. G.S.R. 767(E)/Ess. Com./Sugar, dated the 22nd December, 1977, shall continue to apply to the sugar produced during 1977-78 season in respect of which any direction has been issued under clause 2 of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1972 before the date of pub-

lication of the Order in the Official Gazette rescinding the said Levy Sugar Supply (Control) Order, 1972.

[1-12/77-SPY (Desk-II)]

सांकांनि० 415(प्र)/आव० वस्तु/शर्करा—केन्द्रीय सरकार, शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 5 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के निम्नलिखित आदेशों को विखण्डित करती है, अर्थात् :—

- (i) सांकांनि० 1342/आव० वस्तु/शर्करा, तारीख 14 सितम्बर, 1971; और
- (ii) सांकांनि० 311 (प्र)/आव० वस्तु/शर्करा, तारीख 15 जून, 1972।

[सं० 1-12/77 एस०पी०वाई० (डेस्क-II)]

G.S.R. 415(E)/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), read with clause 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby rescinds the following Orders of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food), namely :—

- (i) G.S.R. 1342/Ess. Com./Sugar, dated the 14th September, 1971; and
- (ii) G.S.R. 311(E)/Ess. Com./Sugar, dated the 15th June, 1972.

[1-12/77-SPY (Desk-II)]

सांकांनि० 416 (प्र)/आव० वस्तु/शर्करा—केन्द्रीय सरकार, शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 4 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं० सांकांनि० 1752/आव० वस्तु/शर्करा, तारीख 20 नवम्बर, 1967 को विखण्डित करती है।

[1-12/77-एस०पी०वाई० (डेस्क-II)]

सी०एन० राघवन, संयुक्त मन्त्रि

G.S.R. 416(E)/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), read with clause 4 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby rescinds the Order of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Food) No. G.S.R. 1752/Ess. Com./Sugar, dated the 20th November, 1967.

[1-12/77-SPY (Desk-II)]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy